



पुण्ना International School

Shree Swaminarayan Gurukul, Zundal

PERIODIC ASSIGNMENT – 3 2020 -21

SUB : HINDI

GRADE : 3

पठनभाग

प्रश्न: 1 अपठित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर लिखिए।

(अ) नीम भारत का जाना – पहचाना वृक्ष है। बबूल की तरह इसके बीज बरसात में उग जाते हैं। गांवों में आंगन, खेतों की मेड़ों तथा बगीचों में नीम का वृक्ष लगाने की परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है। नीम की पत्तियों को गेंहूँ, जौ, चने में कीटनाशकों के रूप में प्रयोग किया जाता है। नीम की दातुन दांत के रोगों तथा कीड़ों से बचाव कर दांतों को मजबूत करती है। नीम की छाल घाव में मरहम का काम करती है। नीम का अर्क पीने से खून साफ होता है।

सही विकल्प के सामने (✓) का निशान लगाइए।

(१) उपयुक्त गद्यांश में किस वृक्ष का वर्णन किया गया है?

(क) पीपलका। (ख) आमका (ग) सेबका (घ) नीमका

(२) नीम की पत्तियों का प्रयोग किस रूप में होता है?

(क) दातुन (ख) कीटनाशक (ग) चाय। (घ) भोजपत्र

(३) नीम का पेड़ कहां – कहां लगाया जाता है?

उत्तर: _____

(४) लोग नीम की दातुन का प्रयोग क्यों करते हैं?

उत्तर: _____

प्रश्न: २ लेखन विभाग:

पत्र लिखिए

गीष्म अवकाश में अपने नाना नानी के साथ रहने के लिए पिताजी से अनुरोध करते हुए पत्र लिखिए।

२३, अराधनासोसायटी,

पंजाब

१० जून, २०२०

आदरणीय पिताजी

सस्नेह नमस्ते,

पिताजी मेरी वार्षिक परीक्षा पूरी हो गई है और मेरी परीक्षा काफी अच्छी हुई है। और मुझे विश्वास है कि मैं काफी अच्छे नंबरसे उत्तीर्ण होऊंगा। मेरे ग्रीष्म अवकाश ८ जून से २५ जून तक का होनेवाला है, पिताजी मुझे ग्रीष्म अवकाश में नानाजी के घर जाना है। बहुत साल हो गए हैं मैं उनसे नहीं मिला। मेरा अवकाश इस साल थोड़ा ज्यादा दिनों का होनेवाला है। तो मैं नानाजी के घर जाना चाहत हूं। तो क्या आप मुझे नानाजी के घर जाने की अनुमति देंगे। ताकि मैं नानाजी से मिल सकूं।

आपका लाड़ला बेटा,

रोहन

अनुच्छेद लिखो।

व्यायाम

- व्यायाम शरीर के संचालन का एक तरीका है।
- व्यायाम शरीर को उचित दशा में रखने का काम करता है।
- व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है।
- व्यायाम करने से शरीर में स्फूर्ति आती है।
- व्यायाम करने से मन शांत रहता है।
- बच्चे खेल-कूद करके अपना व्यायाम करते हैं।
- व्यायाम करने के लिए अनेक विधियां काम में ली जाती हैं।
- व्यायाम शरीर के संचालन का एक अच्छा तरीका है।
- व्यायाम करने से शरीर को लाभ होता है।
- प्रत्येक व्यक्तिको कुछ न कुछ व्यायाम अवश्य करना चाहिए।
- साइकिल चलाना, तैरना, सैर करना इत्यादि ये सब व्यायाम के तरीके हैं।
- व्यायाम करने से पुरा दिन हमारा अच्छा गुजरता है।
- व्यायाम करने से शरीर कभी बीमार नहीं पड़ता है।
- व्यायाम हमें रोज करना चाहिए।
- व्यायाम हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है।

प्रश्न 3: लेखन विभाग: निबंध लिखिए

शिक्षक दिवस

१: भारत में शिक्षक दिवस ५ सितंबर को मनाया जाता है।

२: ५ सितंबर को १८८८ को डां सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है।

३:जो भारत के दुसरे राष्ट्रपति थे।

४:वह एक शिक्षक और दार्शनिक भी थे।

५: शिक्षक हमें कड़ी मेहनत से आगे बढ़ना सिखाते हैं।

६: शिक्षक हमें विद्यालय में पढ़ाते हैं।

७: शिक्षक हमें अनुशासन सिखाते हैं।

८: शिक्षक क्षेत्र में उनका स्थान देखते हुए उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है।

९: राधाकृष्णन बच्चों से बहुत प्यार करते थे।

१०: शिक्षक का स्थान जीवन में बहुत बड़ा होता है।

११: शिक्षक हमें अच्छे बुरे की पहचान करना सिखाते हैं।

१२: शिक्षक बिना किसी भेदभाव और सर्वार्थ के सभी बच्चों को एक समान प्यार करते हैं।

व्याकरण विभाग

प्रश्न: ३ निम्नलिखित समानार्थी शब्द लिखे।

(१) गांव: _____

(३) आंख- _____

(२) बचाव: _____

प्रश्न: (४) विलोम शब्द लिखे।

(क) मजबूत: _____

(ग) दूर: _____

(ख) साफ: _____

(घ) मूर्ख- _____

प्रश्न: (५) शब्दार्थ लिखो।

१: मूर्ख: नासमझ

२: समझदार: बुद्धिमान

३: अधिकार: हक

४: झगड़ा: लड़ाई

५: न्याय: फैसला

६: कचहरी: जहां फैसला सुनाया जाता है

७:चतुर: चालाक

८: तराजू: वजनकरनेकामाध्यम

९:मेंज: टेबल

१०:झपट:छिनना

(ग) निम्नलिखित विशेषण का वाक्य में प्रयोग कीजिए।

१:छोटा -

२: दयालु-

३: साफ-

४: खट्टे,

५: गरम

६: नील

७:, बूढ

प्रश्न: (६) : प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

१: बंदर कौन सा फैसला करनेकेलिए तैयार हैं?

२: बंदर बिल्लियों को कहा चलनेकेलिए कहता है?

३: सेठ कपड़ेको किस रंग मेंरंगवान चाहता था?

४ : सेठ और अंबती मेंसेकौन अधिक बुद्धिमानथा?

५:क्योंजीमल को बात-बात में क्या पूछने की आदत थी?
